



प्रेस नोट

कोतवाली बिसवां, सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट में कुल उन्नीस लाख पचास हजार रुपये की संपत्ति जब्त

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा अपराधियों का मनोबल तोड़ने हेतु गैंग बनाकर अपराध घटित करने वाले अपराधियों द्वारा अर्जित की गयी अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अंतर्गत गैंगेस्टर एक्ट में पंजीकृत अभियोगों में संलिप्त रहे अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया गया। चलाये गये अभियान में थाना बिसवां से एक प्रकरण में अपराध से अर्जित कुल 02 संपत्तियां चिन्हित हुईं। जिसके जब्तीकरण हेतु जिलाधिकारी कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। जिसमें 01 मकान व 01 प्लॉट सम्मिलित है। जिसकी कुल कीमत करीब 19,50,000/- रुपये (साढ़े उन्नीस लाख रुपये) है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

दिनांक 15.10.2020 दिन बृहस्पतिवार को जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर के आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के अनुपालन के क्रम में तहसीलदार बिसवां एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बिसवां व राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम की मौजूदगी में ग्राम जलालपुर थाना व परगना व तहसील बिसवां जिला सीतापुर स्थिति अभियुक्ता श्रीमती शाहजहां पत्नी स्व० अजीम पुत्री अजीमुल्ला निवासी मोहल्ला पक्का कटरा व मोहल्ला दायरा कस्बा व थाना बिसवां हाल निवासी ग्राम जलालपुर परगना व तहसील व थाना बिसवां जिला सीतापुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1)उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज बिरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की कार्यवाही के क्रम में ग्राम जलालपुर परगना व तहसील बिसवां व थाना बिसवां जिला सीतापुर स्थिति मकान की नियमानुसार जब्ती की कार्यवाही की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 62/2020 धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना बिसवां सीतापुर।
2. मु०अ०सं० 79/2020 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना बिसवां सीतापुर।
3. मु०अ०सं० 432/2020 धारा 2/3यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना बिसवां सीतापुर।

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली संयुक्त राजस्व/पुलिस टीम -

1. श्री राजकुमार गुप्ता तहसीलदार बिसवां,
2. श्री इन्द्रजीत सिंह चौहान प्रभारी निरीक्षक बिसवां,
3. उ०नि० श्री धर्मेन्द्र चौधरी कोतवाली बिसवां,
4. श्री नीलेश कुमार क्षे० लेखपाल जलालपुर,

5. श्री रामकुमार यादव लेखपाल बिसवां ,
6. आरक्षी मनेन्द्र सिंह कोतवाली बिसवां,
7. आरक्षी दानवीर सिंह कोतवाली बिसवां,
8. आरक्षी कपिल कुमार कोतवाली बिसवां,
9. आरक्षी अमित कुमार मागंट बिसवां,
10. आरक्षी अमित बालियान कोतवाली बिसवां,
11. म0 आरक्षी कुमारी नीतू कोतवाली बिसवां,
12. म0 आरक्षी कुमारी अंजली रानी कोतवाली बिसवां,